

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA



एस.जी.-डी.एल.-सा.-04122024-259135
SG-DL-W-04122024-259135

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 17]	दिल्ली, नवम्बर 22—नवम्बर 28, 2024, बृहस्पतिवार / अग्रहायण 1—अग्रहायण 7, 1946	[रा.रा.रा.क्षे.वि. सं. 276
No. 17]	DELHI, NOVEMBER 22—NOVEMBER 28, 2024, THURSDAY / AGRAHAYANA 1—AGRAHAYANA 7, 1946	[N.C.T.D. No. 276

भाग II खण्ड 1
PART II—Sec. 1

न्यायिक और मजिस्ट्रेरी मामलों पर अधिसूचनाएं और आदेश, उच्च न्यायालय की अधिसूचनाएं और भारत के निर्वाचन आयोग की विधिक अधिसूचनाओं तथा अन्य निर्वाचन अधिसूचनाओं का पुनः प्रकाशन

Notifications and Orders on Judicial and Magisterial matters; reproduction of High Court Notifications and Statutory Notifications of the Election Commission of India and other Election Notifications

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, दिल्ली
अधिसूचना
दिल्ली, 27 नवम्बर, 2024

I 0&e0p0v0@p0l 0@102(2)/2018/990.—निम्नलिखित को सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है:—

भारत निर्वाचन आयोग सचिवालय
अधिसूचना

दिल्ली, 27 नवम्बर, 2024

सं. 154/DL/2024-P.Admn.—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (1950 का 43) की धारा 13-क की उप-धारा(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत निर्वाचन आयोग राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार के

परामर्श से एतद्वारा, श्री पी. कृष्णमूर्ति, आई.ए.एस., के स्थान पर सुश्री आर एलिस वाज, आई.ए.एस. (ए.जी.एम.यू.टी:2005), को उनके कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से आगामी आदेशों तक के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में नामित करता है।

2. सुश्री आर एलिस वाज, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के अधीन सभी पदभार या किसी कार्य के पदभारों को तत्काल सौंप देंगी या धारण करना समाप्त कर देंगी, जो कि वे ऐसा पदभार ग्रहण करने से पहले धारण कर रही थी।

3. सुश्री आर एलिस वाज, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के रूप में कार्य करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के अधीन किसी भी प्रकार का कोई अतिरिक्त कार्यभार ग्रहण नहीं करेंगी सिवाय इसके कि उनको राज्य सचिवालय में निर्वाचन विभाग के प्रभारी, सरकार के सचिव पदाभिहित किया जाएगा।

आदेश से,
राहुल शर्मा, प्रधान सचिव

आदेश से
राजेश कुमार, विशेष मुख्य निर्वाचन अधिकारी, दिल्ली

OFFICE OF THE CHIEF ELECTORAL OFFICER, DELHI
NOTIFICATION

Delhi, the 27th November, 2024

No. CEO/COE/102(2)/2018/990.—the Following is published for general information:—

SECRETARIAT OF THE ELECTION COMMISSION OF INDIA
NOTIFICATION

Delhi, the 27th November, 2024

No. 154/DL/2024-P.Admn.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 13A of the Representation of the People Act, 1950 (43 of 1950), the Election Commission of India in consultation with the Govt. of N.C.T. of Delhi hereby designates Ms. R Alice Vaz, IAS (AGMUT: 2005) as the Chief Electoral Officer for the N.C.T. of Delhi with effect from the date she takes over charge and until further orders in place of Sh. P. Krishnamurthy, IAS.

2. Ms. R Alice Vaz shall cease to hold and hand over forthwith the charge of all or any charges of work under the Govt. of N.C.T. of Delhi, which she may be holding before such assumption of office.

3. Ms. R Alice Vaz while functioning as the Chief Electoral Officer, N.C.T. of Delhi shall not hold any additional charge whatsoever under the Government of N.C.T. of Delhi except that she should be designated Secretary to the Government in charge of Election Department in the State Secretariat.

By order,
RAHUL SHARMA, Principal Secy.

By Order
RAJESH KUMAR, SPECIAL CHIEF ELECTORAL OFFICER, DELHI